



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 15, 2003 (माघ 26 1924)  
No. 7] NEW DELHI SATURDAY, FEBRUARY 15, 2003 (MAGHA 26, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2 (PART I—SECTION 2)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2003

सं० आर०एच०/953/स्था०(कार्यिक)—राज्य सभा में अधिवासी अधिकारी श्री एम० एल० तनेजा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध स्वीकृत होने के परिणामस्वरूप 1 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 15 जनवरी 2003

सं० ए-19013/1/2002-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्रीमती रिबेका मथाई (भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा : 1989) को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में वेतनमान रु० 12,000-375-16,500/- में दिनांक 14 जनवरी, 2003

1-452 GI/2002

के पूर्वाह्न से उप सचिव के पद पर तीन वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

वी० चन्द्रशेखरन, अवर सचिव

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2003

सं० 3(17)/97-प्रशासन-1—राष्ट्रपति, श्री देवराज तिवारी, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय को रु० 22,400-525-24,500/- के वेतनमान में नियमित आधार पर दिनांक 28 जनवरी 2003 से वयवित्तिक रूप में उनके अतिरिक्त सचिव के पदोन्नत पद पर अतिरिक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

जी० के० आहूजा, उप सचिव

## अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560 094, दिनांक 29 जनवरी 2003

सं० एएन/एन-25--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष आयोग का पुनर्गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ 31-12-2003 तक करते हैं--

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. डॉ० के० कस्तूरिरंगन      | अध्यक्ष       |
| सचिव, अन्तरिक्ष विभाग       |               |
| 2. श्री ब्रजेश मिश्रा       | सदस्य         |
| प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव |               |
| 3. श्री कमल पाण्डे          | सदस्य         |
| मंत्रिमंडल सचिव             |               |
| 4. डॉ० एस० नारायण           | सदस्य         |
| वित्त सचिव व                |               |
| सचिव, आर्थिक कार्य विभाग    |               |
| 5. श्री एस० प्रभाकरन        | सदस्य (वित्त) |
| पदेन सचिव,                  |               |
| भारत सरकार                  |               |
| 6. प्रो० आर० नरसिंह         | सदस्य         |
| 7. श्री एन० पन्त            | सदस्य         |
| 8. डॉ० बिमल जलान            | सदस्य         |
| गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक  |               |
| 9. श्री जी० माधवन नायर      | सदस्य         |
| निदेशक, विक्रम साराभाई      |               |
| अन्तरिक्ष केन्द्र           |               |
| 10. डॉ० पी० एस० गोयल        | सदस्य         |
| निदेशक, इसरो उपग्रह केन्द्र |               |

एस० के० दास, सचिव, अन्तरिक्ष आयोग

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2003

सं० : आई-14011/3/2002-आई० पी० एस०-I--  
भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 27-01-2003 को चयन समिति को दिनांक 07-11-2002 को बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2002 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग के असम खंड में वर्ष 2002 में पांच मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु असम राज्य

पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

क्र० सं० अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री	
1. सरत के० फूकन	01-12-1951
2. बीनय रंजन दास (अ० जा०)	16-09-1951
3. थांगके ओहिन थांगन्यू (अ० जंजा० ह०)	04-03-1953
4. रामाणिधर बरुआ	29-01-1953
5. अनिल फूकन	01-03-1951

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

दिनांक 3 फरवरी 2003

सं० आई-14011/3/2002-आई० पी० एस०-1--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवर्तन पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी :--

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री		
1.	सरत के० फूकन	1-12-1951
2.	बीनय रंजन दास	16-9-1951
3.	थांगके ओहिन थांगन्यू	4-3-1953
4.	रामाणिधर बरुआ	29-1-1953
5.	अनिल फूकन	1-3-1951

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2003

सं० 1-11014/6/91-आई० पी० एस०-4 --श्रीमती नीना सिंह, आई० पी० एस०, एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा दायर ओ०ए० सं० 423/1995 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर खंडीठ, जयपुर के दिनांक 28-5-1994 के निर्देशों के अनुसरण में, जिनकी भारत संघ तथा अन्य बनाम नीना सिंह, आई० पी० एस० एवं अन्य द्वारा दायर डी०बी० सिविल रिट याचिका सं० 6042/1999 में जयपुर खंडीठ, जयपुर में राजस्थान के न्यायाधिकार वाले

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनके दिनांक 3-9-2002 के निर्णय एवं आदेश के तहत पृष्ठ कर दी गई है, केन्द्र सरकार भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 3(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1989 बैच की श्रीमती नोना सिंह, आई० पी० ए० को एाद्द्वारा तत्काल प्रभाव से मणिपुर-त्रिपुरा के आई० पी० एस० संवर्ग से राजस्थान के आई० पी० एस० संवर्ग में स्थानांतरित करती है।

जे० बी० कौशिश, डेस्क अधिकारी

### राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2003

सं० 12013/2/2000रा०भा०(का० 1)---राष्ट्रपति सहर्ष श्री बी० एन० प्रसाद को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में दिनांक 16-12-2002 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष अथवा अगले आदेशों, इन दोनों में जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर उप निदेशक (कार्यान्वयन) नियुक्त करते हैं।

श्रीमती सरोज जैसिया, अवर सचिव

### (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2003

सं० ए-19011/1/2003-प्र०सु० (प्र० 1)---राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (प० बं० 1971) के श्री चंपक चटर्जी को 31 जनवरी, 2003 के अपराह्न से अगले आदेश होने तक कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में अपर सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर० सानेहवाल, अवर सचिव

### विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2002

सं० 18/पी एफ/2002---राष्ट्रपति, श्री रोहित खेड़ा को 12 फरवरी 2002 (पूर्वाह्न) से संयुक्त सचिव स्तर पर नियंत्रक (राजकीय आतिथ्य संगठन-प्रधानमंत्री निवास) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री खेड़ा ने 12 फरवरी 2002 (पूर्वाह्न) को संयुक्त सचिव स्तर पर नियंत्रक (राजकीय आतिथ्य संगठन-प्रधानमंत्री निवास) का पदभार ग्रहण कर लिया है।

आर० के० मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी (पी एफ)

### वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2003

सं० 6 : (फा० सं० ए-19013/02/2003-प्रशा-1)---राष्ट्रपति, भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के अधिकारी श्री मनीष मोहन को 20-1-2003 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए तथा अगले आदेशों तक राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अवर सचिव नियुक्त करते हैं। उन्हें अवर सचिव (के०उ०शु०-IV) के रूप में तैनात किया जाता है।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

सं० 5 : (फा० सं० 50/13/2003-प्रशा० I)---वर्ष 1994 हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड के लिए नियुक्ति हेतु चयन सूची में उनके नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 दिसम्बर, 2002 के कार्यालय ज्ञापन सं० 29/2/2001-ई०ओ० (एम०एम०-1) के अनुक्रम में, राष्ट्रपति 1 जुलाई, 1994 से तथा अगले आदेशों तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करते हैं :—

नाम एवं पदनाम	टिप्पणियाँ
श्री आर० एस० मोणा, उप सचिव	अधिकारियों की पहलपर
श्री सुभाष सो० चव्वा, उप सचिव	वरिष्ठता नियुक्ति की
(1-5-2002 को स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त)	वास्तविक तारोख का ध्यान
श्री बी० पी० भारद्वाज, उप सचिव	किए बिना चयन सूची में
	ईंगित किए गए अनुसार
	होगी।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

### (आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2003

एफ० सं० 2/5/2001-एनएस (I)---राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (डोओपीटी) के कार्यालय ज्ञापन सं० 25013/6/2001-स्था० (ए) दिनांक 28-2-2002 द्वारा जारी प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत संगठन के निम्नांकित समूह 'क' अधिकारियों के विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी अनुरोध को उनके नामों के सामने दर्ज तिथियों से स्वीकार करते हैं :—

अधिकारी नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति की प्रस्तावी तिथि
1	2
सर्वश्री	
एस० ए० एम० जाफरी,	1-5-2003 (पूर्वाह्न)
उप-एन एस सी	
के० एस० कृष्णा, सचिव	1-5-2003 (पूर्वाह्न)

1	2
हेम राज, क्षेत्रीय निदेशक	1-5-2003(पूर्वाह्न)
वी० सी० वी० नाइक, क्षेत्रीय निदेशक	1-2-2003(पूर्वाह्न)
आर० एस० नन्दनवार, क्षेत्रीय निदेशक	1-2-2003(पूर्वाह्न)
एन० एल० खत्री, क्षेत्रीय निदेशक	1-2-2003(पूर्वाह्न)

अनुराधा प्रसाद, निदेशक

### बैंकिंग प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2003

फा० सं० 8/1/02-डी आर टी--राष्ट्रपति, डा० सी० वी० धर्मा राव, उप सचिव, निर्माण महानिदेशालय को 12,750-16,500/- रुपए के वेतनमान में 18-12-2002 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सचिव/रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी० पी० भारद्वाज, अवर सचिव

फा० सं० 8/1/02-डी आर टी--राष्ट्रपति, श्री एम० राज-गोपाला राव, एस एम जो एस-IV स्टेट बैंक आफ हैदराबाद को 10,000-15,200/- रुपए के वेतनमान में 1-1-2003(पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी० पी० भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 21 जनवरी 2003

फा० सं० 8/1/02-डी आर टी--राष्ट्रपति, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र में मुख्य प्रबंधक, श्री आर० पी० चावडा को 10,000-15,200/- रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद के कार्यालय में 23-12-2002 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी० पी० भारद्वाज, अवर सचिव

फा० सं० 8/01/2002-डी आर टी--राष्ट्रपति, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में संयुक्त रजिस्ट्रार, श्री वा० के० बाबा, को 12,750-16,500/- रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़ के कार्यालय में 16-12-2002 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, सचिव/रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी० पी० भारद्वाज, अवर सचिव

फा० सं० 8/1/2002-डी आर टी--राष्ट्रपति, श्री जी० कानन, एस एम जो एस-IV भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद को 10,000-15,200/- रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर के कार्यालय में 23-12-2002 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, सहायक रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी० पी० भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 22 जनवरी 2003

फा० सं० 1/11/97-डीआरटी--राष्ट्रपति, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली के कार्यालय में वसूली अधिकारी श्री आर० के० मोरिया की प्रतिनियुक्ति अवधि में 28-12-2002 से 27-12-2003 तक एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-15,200/- रु० के वेतनमान में वृद्धि करते हैं।

डी० पी० भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 24 जनवरी 2003

फा० सं० 34/3/00-डीआरटी--राष्ट्रपति, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली के कार्यालय में सचिव/रजिस्ट्रार श्री पी० के० सिंह की प्रतिनियुक्ति अवधि में 9-1-2003 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 12,750-16,500/- रु० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर वृद्धि करते हैं।

डी० पी० भारद्वाज, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं० 2/2003/सं० 6/2207/2000-मा० सं० वि०-1/7756--  
क्षेत्रीय संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार कोलकाता कार्यालय के विदेश व्यापार विकास अधिकारी श्री नर्मलेदू सिकंदर, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप दिनांक 30 11-2002 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से रिटायर हो गये हैं।

अ० कु० म० चाकणकर, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

सं० 03/2003/फाइल सं० 6/1177/77/मा० सं० वि०-1/7760--क्षेत्रीय संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, केन्द्रीय कार्यालय के संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, श्री सी० वी० निर्मलराजन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप दिनांक 31-12-2002 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से रिटायर हो गये हैं।

अ० कु० म० चाकणकर, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

**औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग  
(टैरिफ आयोग)**

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 दिसम्बर 2002

सं० ए-19011/4/02-प्रशा०—मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति ने, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20-11-2002 के आदेश संख्या 9/50/2002-ईओ (एस०एम०-I) द्वारा भारत सरकार के अपर सचिव के रैंक और वेतनमान (22400-525-24500 रुपये) में श्रीमती रेणुका विश्वनाथन, भा० प्रशा० से० (के एन : 71) को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में, टैरिफ आयोग में सदस्य-सचिव के पद पर नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है। श्रीमती रेणुका विश्वनाथन ने दिनांक 26-12-02 के पूर्वाह्न से टैरिफ आयोग के सदस्य-सचिव का कार्यभार संभाल लिया है।

आर० के० स्वसेना, निदेशक (सामान्य प्रशा०)

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

सं० ए-12011/1/2000-स्थापना—राष्ट्रपति, श्री शेष कुमार, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी सहायक हैं, की इस मंत्रालय में 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति के कार्यालय को 1 अक्टूबर 2002 से 31 दिसम्बर 2002 तक अथवा उस समय तक, जब तक कि एक नियमित/चयनित सूचा अनुभाग अधिकारी उपलब्ध नहीं हो जाता है, इसमें जो भी घटना पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की यह नियुक्ति विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर है और इस से श्री शेष कुमार को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी की श्रेणी के अंतर्गत नियमित नियुक्ति अथवा वरिष्ठता के लिए दावेदारी करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

एस० एस० केमवाल, अवर सचिव

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय**

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2003

सं० ए-12011/13/2000-मा०स०-II—राष्ट्रपति, इस विभाग की दिनांक 20 दिसम्बर, 2000 को समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढोंडसा) के निजी सचिव के रूप में श्री ए० एस० छतवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पंजाब : 86) को प्रतिनियुक्ति की अवधि को 12-12-2002 से आगे 12-12-2004 तक या उनके द्वारा मंत्री के निजी सचिव के रूप में उनके निवर्तन तक या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं।

पवन वाघवा, उप सचिव

**कोयला और खान मंत्रालय**

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2003

सं० 12/8/96-ए० एन० ओ०—राष्ट्रपति जी द्वारा श्री सुरेश कुमार, अ ई० सी० एण्ड सी० ई० एस० (93) को, दिनांक 27-1-2003 (पूर्वाह्न) से दिनांक 26-1-2007 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक इन्तमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिए कोयला विभाग में रु० 12,000-375-16,500/- के वेतन में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

टी० के० घोष, निदेशक

**इस्पात मंत्रालय**

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2003

सं० 47(6)/94-स्थापना (खंड-II)—इस्पात मंत्रालय की दिनांक 28 अगस्त, 2002 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय में उप-औद्योगिक सलाहकार श्री ए० सी० आर० दास और श्री डी० काशिवा की इसी मंत्रालय में संयुक्त औद्योगिक सलाहकार के पद पर तदर्थ नियुक्ति को आगे 6 महीने के लिए अर्थात् दिनांक 01 फरवरी, 2003 से 31 जुलाई, 2003 अथवा अगले आदेश अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाते हैं।

2. अधिसूचना नियुक्ति अधिकारी को इस्पात मंत्रालय में संयुक्त औद्योगिक सलाहकार के ग्रेड के संबंध में नियमितीकरण अथवा वरिष्ठता के लिए कोई अधिकार नहीं देती। सरकार को संबंधित अधिकारी को बिना कोई कारण बताए अथवा सूचना दिए इस तदर्थ नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार है।

बाबू राम, अवर सचिव

**लघु उद्योग मंत्रालय**

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2002

सं० ए-18011/7/2002-स्थापना—राष्ट्रपति, श्री विनय कुमार, को कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में माननीय कृषि ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री (श्री निखिल कुमार चौधरी) के प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में 29-10-2002 से अनुभाग अधिकारी के स्तर पर नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त नियुक्ति राज्य मंत्री (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय) के कार्यकाल के सह असवानी अथवा जब तक कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय) उन्हें अपने वैयक्तिक स्थापना में रखना चाहें, जो भी पहले हो, तक है।

एच० आर० जोशी, अवर सचिव

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी, 2003

सं० ए-11011/04/94-स्था०-1—राष्ट्रपति, दिनांक 29 नवम्बर, 2002 की पूर्ण को अधिसूचना के क्रम में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के श्री सुरेन्द्र मोहन नट्टर, सहायक निदेशक (रा०भा०) को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में 8-1-2003 से अगले आदेश होने तक नियमित आधार पर उप निदेशक (रा०भा०) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम० एल० मल्होत्रा, अवर सचिव

सं० पी०एफ० (2033)/स्था०-1—खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, श्रीमती राज प्रोवर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जनवरी 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगी।

एम० एल० मल्होत्रा, अवर सचिव

## (उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी, 2003

सं० ए-12011/11/95-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्री बंशी धर कोर को दिनांक 30 दिसम्बर 2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में 8000-275-13500/- रु० के वेतनमान में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं। वे भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में सहायक प्रोफेसर के पद पर अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

एस० के० नायक, अवर सचिव

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 7 जनवरी 2003

सं० ए-32013/2/2002-प्रशा० 1(ए)—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित कनिष्ठ विश्लेषकों को 8000-275-13500/-रु० के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में तदर्थ आधार पर वैज्ञानिक "बी" के पद पर 4-1-2003 से 3-7-2003 तक छह मास की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी के कार्य-भार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

- (i) श्री वसन्त शर्मा
- (ii) डॉ० अशोक कुमार सिंह
- (iii) श्री राजीव शर्मा

सुभाष चन्द्र चावला, उप सचिव

दिनांक 16 जनवरी 2003

सं० ए-12025/1/99-प्रशा० 1(ए)—इस विभाग की 24-7-2002 की अधिसूचना सं० ए-19013/3/99-प्रशा०-1 (ए) के अनुक्रम में राष्ट्रपति, डॉ० यू० एस० टण्डन को 16400-450-20000/- रु० के वेतनमान में भारतीय राजदूतवास, टोक्यो में वैज्ञानिक अटैची के रूप में 28-2-2003 तक अथवा आगामी आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं।

सुभाष चन्द्र चावला, उप सचिव

दिनांक 21 जनवरी 2003

सं० ए-32013/3/2001-प्रशा०-1 (ए)—इस विभाग की दिनांक 21-2-2002 की सप्तसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, राष्ट्रपति, श्री राधेश्याम तिवारी, कनिष्ठ विश्लेषक की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 8000-275-13500/- रु० के वेतनमान में वैज्ञानिक "बी" के रूप में 25-7-2002 से 24-7-2003 तक एक वर्ष के लिए अथवा नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक अथवा वैज्ञानिक पदों के भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं।

सुभाष चन्द्र चावला, उप सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 29 जनवरी 2003

सं० ए/एम 01/021/2002—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय एटलस एवं थिर्मेटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता में अनुसंधान अधिकारी डॉ० तारक नाथ वसक को 10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में, 12-11-2002 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति आधार पर उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० चक्रवर्ती, अवर सचिव

## वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

नई दिल्ली-110016, दिनांक 30 जनवरी 2003

सं० ए-19014/03/2003-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वैयक्तिक पदोन्नयन आधार पर अवर सचिव के पदधारी अधिकारी श्री प्रदीप कुमार को 9 जनवरी, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में पूर्णतया तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में नियुक्त करते हैं।

गुरमीत सिंह, अवर सचिव

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 15 जनवरी 2003

सं० ए-120121/2003-पी-II(. )—राष्ट्रपति, सुश्री मोना गुप्ता, आई ए एस (ओ आर: 71) को 14 जनवरी, 2003 की पूर्वाह्न से 22,400-525-24,500/- रु० के वेतनमान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2003

सं० ए०-12025/5/94-सी० एच० एस०-IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० राजेश हंस को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग के विवेक प्रेड-II (नेत्र विज्ञान) में परीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 17 नवम्बर, 1995 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई में तैनात करते हैं।

यु० सी० नागिया, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2003

सं० ए-32013/2/2002-स्थापना-I—कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16-1-2003 तथा 17-1-2003 के आदेश सं० 5/3/2002-ई०ओ० (एम० एम० : 1) के अनुसरण में श्री ए० सी० पान्डे, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश-84) ने दिनांक 22 जनवरी, 2003 के पूर्वाह्न से स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

डॉ० अनिल कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2003

सं० ए-35012/3/92-सी० एच० एस०-I—डॉ० सत्यवीर सिंघल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने अपना इस्तीफा मंजूर होने के परिणामस्वरूप 25-4-2001 के पूर्वाह्न से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ऐसा माना जाता है।

2. दिनांक 20-6-1997 से 25-4-2001 (पूर्वाह्न) को अवधि अकार्य दिवसों के रूप में मानी गई है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए०-12025/146/99-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० सरिता कुमारी को 10-4-2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ० सरिता कुमारी को उसा तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 फरवरी 2003

सं० ए० 12025/117/94-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग का सिफारिशों पर डॉ० के० एम० यादव को 21-9-1994 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-75-2800-ई०व०-100-4000 रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ० के० एम० यादव को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, अहमदाबाद के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी 2003

सं० 44011/8/2002-स्था०-1—राष्ट्रपति, योजना आयोग के अनुभाग अधिकारी श्री राजू मांझी [सी० एस० एल० सं० 3962 (ए)] को कृषि एवं सहकारिता विभाग में अवर सचिव के नियमित पद (रिक्ति) पर पूर्णतया तदर्थ आधार पर तथा सी० एस० एस० के ग्रेड-I की चयन सूची को तैयार होने तक या आगामी आदेश तक, दोनों में से जो भी पहले हो, 10,000-525-15200/- रु० के वेतनमान में ग्रेड-I पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री मांझी को सी० एस० एस० के ग्रेड-I की चयन सूची में अपना नाम शामिल कराने का अधिकार नहीं होगा। जब भी सी० एस० एस० के ग्रेड-I की चयन सूची में श्री मांझी का नाम शामिल किया जाएगा तो उस समय उनको वरिष्ठता का दावा करने में इस तदर्थ नियुक्ति का कोई लाभ नहीं होगा।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2003

सं० 44011/8/2002-स्था०-1—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री दानबन्धु सिंह [सी० एस० एल० सं०-3942 (ए)] को कृषि एवं सहकारिता विभाग में अवर सचिव के पद की नियमित रिक्ति पर 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में 6 जनवरी, 2003 के पूर्वाह्न से के० स० से० के श्रेणी-I की चयन सूची तैयार किए जाने तक या आगामी आदेशों तक के लिए, इसमें जो भी पहले हो, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी-I में पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से संबंधित अधिकारी को उनके नाम को के० स० से० की श्रेणी-I में शामिल किए जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जब कभी उनके नाम को के० स० से० के श्रेणी-I की चयन सूची में शामिल किया जाता है, इस तदर्थ नियुक्ति का उपयोग वरिष्ठता के दावे हेतु नहीं किया जा सकता है।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2003

सं० 19015/(12)1/97 आ० प्रा०-1--विभागीय लेखा सगठन में सहायक लेखा अधिकारी श्री कुमलजीत सिंह ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि और सहकारिता विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर अपनी प्रतिनियुक्ति की अनुमोदित बढ़ी हुई अवधि के पूरा होने पर दिनांक 31-12-2002 (अपराह्न) से आयोग में पदभार त्याग दिया है।

राजकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2003

सं० 12-6/2002-मशीनरी (प्रशासन)--राष्ट्रपति, श्री एम० एल० मेहता, एस० टी० ई० को दिनांक 15-11-2002 के पूर्वाह्न उत्तर क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, हिसार (हरियाणा) 12,000-375-16,500 रु० वेतनमान में निदेशक (जी० सी० एन० श्रेणी 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय) के रूप में तदर्थ रूप से एक वर्ष के लिए अथवा नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक नियुक्त करते हैं।

एच० सी० बतरा, अवर सचिव

पटसन विकास निदेशालय

कोलकाता-7000 020, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं० ए० 15-321/74--अधोहस्ताक्षरी को पटसन विकास निदेशालय के नियमित लेखाकार श्री बी० के० साहा को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर इसी निदेशालय में वेतनमान रु० 6500-200-10,500 में, अस्थायी स्थानापन्न क्षमता से दिनांक 16 जनवरी 2003 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हुए हर्ष हो रहा है।

डॉ० संतोष कुमार विश्वास, निदेशक

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2003

सं० 9-10/2002-मात्स्यिकी (प्रशासन)--राष्ट्रपति, डॉ० एच० लेखमण अय्यर को जल कृषि प्राधिकरण में 8000-275-13500/-रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर दो वर्षों की अवधि के लिए 1-10-2002 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (समूह "क" राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० के० मेहता, अवर सचिव

सं० 9-10/2002-मात्स्यिकी (प्रशासन)--राष्ट्रपति, डॉ० पी० पक्षीराजन को जल कृषि प्राधिकरण में 8000-275-13500/-रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर दो वर्षों की अवधि के लिए 1-11-2002 (पूर्वाह्न) से सहायक निदेशक (तकनीकी) (ग्रुप "क" राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० के० मेहता, अवर सचिव

लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2003

सं० ए०-18011/11/2003-स्था०--राष्ट्रपति, श्री एस० के० दुटेजा, आ० प्र० से० (पंजाब : 68) को सचिव के रूप में लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में 31 दिसम्बर, 2002 (अपराह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एच० आर० जोशी, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं० ए०-12022/8/98-स्था०-1--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9/10 दिसम्बर, 2002 के का० जा० सं० 5/5/2001-सी एस-2 के अनुसरण में, श्री कल्लू सिंह, प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में प्रधान निजी सचिव के पद पर 10000-15200 रु० के वेतनमान में नियमित आधार पर 10 दिसम्बर, 2002 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

एल० सी० मेहता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी, 2003

सं० 12014/7/2002-बी० सी० सी०--राष्ट्रपति, सक्षम प्राधिकारों के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एम० बी० सी० एफ० डी० सी०) के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री ए० ए० नरवी के कार्यकाल को अनुसूची 'ग' 22500-600-27300 रु० के वेतनमान में दिनांक 4-11-2002 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए, अगले आदेश होने तक बढ़ाते हैं।

प्रहलाद कुमार, निदेशक (बी० सी०)

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2003

सं० 18-9/2001-सी० एल० एम०--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 350-बी के अंतर्गत श्री के० के० सेठ, आई० ए० एस० (सेवानिवृत्त) (मध्य प्रदेश : 63) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने को ताराख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

मपना राय, संयुक्त सचिव



## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

## (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 जनवरी 2003

सं० 2(1)/2001-का० I:—इस विभाग को दिनांक 18-10-2001 को समसंख्यक अधिसूचना के तिलसिले में श्री रतन सिंह, सहायक इंजीनियर (बैद्युत) को 6500-200-10500/-रुपए के वेतनमान में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि को वर्तमान शर्तों एवं निबंधनों पर दिनांक 18-10-2002 से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो पुनः आगे बढ़ा दी गई है।

आर० के० मनचन्दा, उप निदेशक

सं० 2 (2)/99-का० 1—इस विभाग की दिनांक 19-08-2002 की समसंख्यक अधिसूचना के तिलसिले में श्रीमती ए० पद्मावती, वित्त अधिकारी की 6500-200-10500/- रु० के वेतनमान में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 'भारत में सेमोकण्डक्टर तथा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड उद्योग में पर्यावरण प्रबंधन' नामक परियोजना में प्रतिनियुक्ति की अवधि को 01-01-2003 से 31-03-2003 तक तीन माह की अवधि के लिए पुनः आगे बढ़ा दी गई है।

आर० के० मनचन्दा, उप निदेशक

## राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जनवरी 2003

सं० ए-39013/1/2001-प्रशा० I—महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री एस० एल० जवाहरलाल, (कर्मचारी कोड सं० 2496) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली, में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-एस बी के पद से त्यागपत्र दिनांक 25 अगस्त, 2000 की (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

एल० एस० विश्वनाथन, उप निदेशक (प्रशा०)

## जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं० 1/2003, फाइल सं० 2/1/2001-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्री ए० एस० धींगड़ा को आयुक्त (कमान क्षेत्र विकास) के पद पर 18400-500-22400 रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर पांच वर्ष के लिए दिनांक 10-01-2003 (पूर्वाह्न) से जल संसाधन मंत्रालय में नियुक्त करते हैं।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2003

सं० 4/2003 फा० सं० 19/14/2001-स्था०-I—दिनांक 24 जुलाई, 1990 के वय विभाग (कार्यान्वयन प्रकोष्ठ) के कार्यालय ज्ञापन सं० 19(1)/आई० सं०/85 के अनुसरण में तथा जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न संगठनों में विद्यमान पुस्तकालयों के लिए स्टॉफिंग प्रणाली के वर्गीकरण एवं निर्धारण सम्बन्धी जल संसाधन मंत्रालय के आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक के रिपोर्ट में निहित सिफारिशों को स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में विद्यमान पुस्तकालय को तत्काल प्रभाव से श्रेणी-III पुस्तकालय के रूप में वर्गीकृत करते हैं।

अशोक झा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2003

सं० 2/2003 फाइल सं० 30/5/2002-स्थापना-I—केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह 'क') सेवा से त्यागपत्र स्वीकार किए जाने परिणामस्वरूप, श्री शैलेश राजन, सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग की 27-12-2002 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

सं० 3/2003, फा० सं० 25-3(7)/2001-स्था०-1—संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2000 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री राजेश कुमार सिंह को दिनांक 24 12-2002 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग ग्रुप 'क' सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर रु० 8000-13500 के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

2 श्री राजेश कुमार सिंह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

सं० 5/2003, फा० सं० 25/3(2)/2001-स्थापना-I—संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2000 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री सुशान्त कुमार समल को दिनांक 10-12-2002 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर रु० 8000-13500/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

2. श्री सुशान्त कुमार समल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

सं० 4/2003, फा० सं० 25/3(16)/2001-स्थापना एक—संयुक्त इंजिनियरिंग सेवा परीक्षा 2000 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री जयन्त यशवन्त राव को दिनांक 11-12-2002 अपराह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर रु० 8000-13500/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

2. श्री जयन्त यशवन्त राव कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

सं० 8/2003, फाईल संख्या 25/3(8)/2001-स्थापना एक—संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2000 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री शील रजनीश को दिनांक 15-11-2002 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर रु० 8000-13500 के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

2. श्री शील रजनीश कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

सं० 9/2003, फाईल संख्या 25/3(14)/2001-स्थापना एक—संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2000 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री बी० वेंकटा धर्मा राव को दिनांक 11-12-2002 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/

सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर रु० 8000-13500 के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

2. श्री बी० वेंकटा धर्मा राव कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

#### शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2003

सं० ए-11013/2/90-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में अपर सचिव, श्री पी० के० होता, आईएएस (उड़ीसा : 69) को श्रीमती विनीता राय के स्थान पर दिनांक 25-10-2002 से अगले आदेशों तक के लिए इस मंत्रालय में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त करते हैं।

नीरज कुमार, उप सचिव

सं० ए 22012/1/2001-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, द्वारा सुश्री अनुपमा अतनन्द, आईआरएस (आईटी : 92) को केन्द्रीय कार्यकाल प्रतिनियुक्ति आधार पर 6-1-2003 (पूर्वाह्न) से 4 वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में 12,000-16,500/- रु० के वेतनमान में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. इस मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किए जाने पर इन्हें उसी तारीख अर्थात् 6-1-2003 से अगले आदेशों तक श्री सर्वेश सैनी के स्थान पर संपदा निदेशालय में संपदा निदेशक-II के पद पर तैनात किया जाता है।

नीरज कुमार, उप सचिव

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 31st January 2003

No. RS/953/Estt. (P).—Consequent on the acceptance of his request for voluntary retirement, Shri M. L. Taneja, Executive Officer in Rajya Sabha Secretariat, shall retire from service with effect from the forenoon of the 1st February, 2003.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 3rd January 2003

No. I-14011/3/2002-IPS.I.—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 27-01-2003, approved the Select List of 2002, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 07-11-2002, containing the names of the following State Police Service Officers of Assam, towards filling up five substantive vacancies in the Assam Segment of Joint Assam-Meghalaya IPS Cadre during 2002 :

S. No., Name of the officer &amp; Date of Birth.

(S/Shri)

1. Sarat K. Phukan—01-12-1951
2. Binoy Ranjan Das (SC)—16-09-1951
3. Thangkeohen Thangnew (STH)—04-03-1953
4. Ramanidhar Barua—29-01-1953
5. Anil Phukan—01-03-1951.

S. P. VERMA, Under Secy.

## NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110 066, the 15th January 2003

No. A-19013/1/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. Rebeeca Mathai (IA&AS : 89), as Deputy Secretary in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in the National Security Council Secretariat with effect from the forenoon of 14th January, 2003 for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

V. CHANDRASEKHARAN, Under Secy.

## MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 28th January 2003

No. F. 3(17)/97-Admn.—The President is pleased to appoint Shri D. R. Tiwari, Joint Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs, as Additional Secretary to the upgraded post of Additional Secretary as personal to him in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- on regular basis with effect from 28th January, 2003.

G. K. AHUJA, Dy. Secy.

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 094, the 29th January 2003

No. AS/S-25.—The President is pleased to reconstitute the Space Commission with the following composition till 31-12-2003 :—

## Chairman

1. Dr. K. Kasturirangan  
Secretary, Department of Space

## Members

2. Shri Brajesh Mishra  
Principal Secretary to PM
3. Shri Kamal Pande  
Cabinet Secretary
4. Dr. S. Narayan  
Finance Secretary &  
Secretary, Deptt. of Economic Affairs

## Member (Finance)

5. Shri S. Prabhakaran  
Ex-officio Secretary to Government of India

## Members

6. Prof. R. Narasimha
7. Shri N. Pant
8. Dr. Bimal Jalan  
Governor, RBI
9. Shri G. Madhavan Nair  
Director, Vikram Sarabhai Space Centre
10. Dr. P. S. Goel  
Director, ISRO Satellite Centre.

S. K. DAS, Secy. to the Space Commission

No. I-14011/3/2002-IPS.I.—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Assam Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Joint IPS Cadre of Assam-Meghalaya under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules 1954. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

S. No., Name of the officer &amp; Date of Birth.

(S/Shri)

1. Sarat K. Phukan—01-12-1951
2. Binoy Ranjan Das—16-09-1951
3. Thangkeohen Thangnew—04-03-1953
4. Ramanidhar Barua—29-01-1953
5. Anil Phukan—01-03-1951.

S. P. VERMA, Under Secy.

New Delhi, the 30th January 2003

No. I-11014/6/91-IPS.IV.—Pursuant to the directions dated 28-05-1994 of the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Jaipur Bench, Jaipur in OA No. 423/1995 filed by Mrs. Nina Singh, IPS, and others versus Union of India and others which have been confirmed by the Hon'ble High Court of Judicature for Rajasthan at Jaipur Bench, Jaipur vide its judgement and order dated 03-09-2002 in D.B. Civil Writ Petition No. 6042/1999 filed by Union of India and others versus Mrs. Nina Singh, IPS, and others, the Central Government in exercise of powers conferred under Rule 5(2) of Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 hereby transfer Mrs. Nina Singh, IPS, belonging to 1989 batch, from IPS cadre of Manipur-Tripura to IPS cadre of Rajasthan with immediate effect.

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

## (DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-3, the 15th January 2003

No. 12013/2/2000-OL(Imp.-I).—The President is pleased to appoint Shri B. N. Prasad as Deputy Director (Implementation) in the Regional Implementation Office under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, on deputation basis with effect from 16-12-2002 (forenoon) for a period of three years or till further orders whichever is earlier.

SMT. SAROJ JAISIA, Under Secy.

**DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND  
PUBLIC GRIEVANCES)**

New Delhi, the 3rd February 2003

No. A-19011/1/2003-AR (Ad. I).—The President is pleased to appoint Shri Champak Chatterji, IAS (WB : 1971) as Additional Secretary in the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions with effect from the afternoon of 31 January, 2003 until further orders.

R. SANEHWAL, Under Secy.

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**

New Delhi, the 18th December 2002

No. 18/PE/2002.—The President is pleased to appoint Shri Rohit Khara as Comptroller (Government Hospitality Organisation—Prime Minister's House) at the level of Joint Secretary with effect from 12th February, 2002 (F/N).

Shri Khara has assumed charge of the post of Comptroller (Government Hospitality Organisation — Prime Minister's House) at the level of Joint Secretary in the forenoon of 12th February, 2002 (F/N).

R. K. MISRA, Administrative Officer (PF)

**MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS**

**(DEPARTMENT OF REVENUE)**

New Delhi, the 24th January 2003

No. 6 : (F. No. A-19013/02/2003-Ad. I).—The President is pleased to appoint Shri Manish Mohan, IC & CES as Under Secretary in the Central Board of Excise & Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 20-01-2003 (FN) and until further orders. He is posted as Under Secretary (CX-IV).

PREETI PANT, Under Secy.

No. 5 : (F. No. 50/13/2003-Ad. I).—Consequent upon inclusion of their names in the Select List for appointment to the Selection Grade of the CSS for the year 1994 and in pursuance of Department of Personnel and Training O.M. No. 29/2/2001-FO (MM. I) dated 12 December 2002, the President is pleased to appoint the following officers of CSS to the Selection Grade of the CSS with effect from 01 July, 1994 and until further orders :

S. No. Name & Designation

1. Shri R. S. Meena,  
Deputy Secretary.
2. Shri Subhash C. Chugh,  
Deputy Secretary.  
(Voluntarily retired on 01-05-2002)
3. Shri V. P. Bhardwaj,  
Deputy Secretary.

Remarks

The inter-se seniority of officers will be as indicated in the Select List irrespective of the actual date of appointment.

PREETI PANT, Under Secy.

**DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS**

New Delhi, the 30th January 2003

F. No. 2/5/2001-NS (I).—The President is pleased to accept the request of following Group 'A' officers of National Savings Organisation for Special Voluntary Retirement under the provisions issued by Ministry of Personnel, Public Grievance & Pensions (DOPT) O.M. No. 25013/6/

2001-Esitt. (A) dated 28-2-2002 w.e.f. the date mentioned against their names :—

S. No., Name and Designation of the Officer & Effective date of retirement

(S/Shri)

1. S. A. M. Jafri, Dy. NSC—1-5-2003 (F/N)
2. K. S. Krishna Secretary—1-5-2003 (F/N)
3. Hem Raj, Regional Director—1-5-2003 (F/N)
4. V. C. B. Naik, Regional Director—1-2-2003 (F/N)
5. R. S. Nandanwar, Regional Director—1-2-2003 (F/N)
6. N. L. Khatri, Regional Director—1-2-2003 (F/N)

ANURADHA PRASAD, Dir.

**BANKING DIVISION**

New Delhi, the 13th January 2003

F. No. 8/1/02-DRT.—The President is pleased to appoint Dr. C. V. Dharma Rao, Deputy Secretary, Directorate General of Works to the post of Secretary/Registrar in the office of Debts Recovery Tribunal, Hyderabad on deputation basis in the pay scale of Rs. 12,750—16,500 for a period of three years w.e.f. 18-12-2002 (F.N.) or until further orders, whichever is earlier.

D. P. BHARDWAJ, Under Secy.

F. No. 8/1/02-DRT.—The President is pleased to appoint Shri M. Rajagopala Rao, SMGS-IV, State Bank of Hyderabad to the post of Assistant Registrar in the office of Debts Recovery Tribunal, Hyderabad on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000—15,200 for a period of three years w.e.f. 1-1-2003 (F.N.) or until further orders, whichever is earlier.

D. P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 21st January 2003

F. No. 8/1/02-DRT.—The President is pleased to appoint Shri R. P. Chavda, Chief Manager, State Bank of Saurashtra to the post of Recovery Officer in the office of Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000—15,200 for a period of three years w.e.f. 23-12-2002 (F.N.) or until further order whichever is earlier.

D. P. BHARDWAJ, Under Secy.

F. No. 8/1/02-DRT.—The President is pleased to appoint Shri V. K. Bawa, Jt. Registrar, Central Administrative Tribunal to the post of Secretary/ Registrar in the office of Debts Recovery Tribunal Chandigarh on deputation basis in the pay scale of Rs. 12,750—16,500 for a period of three years w.e.f. 16-12-2002 (F.N.) or until further orders, whichever is earlier.

D. P. BHARDWAJ, Under Secy.

F. No. 8/1/02-DRT.—The President is pleased to appoint Shri G. Kannan, SMGS-IV, State Bank of Hyderabad to the post of Assistant Registrar in the office of Debts Recovery Tribunal, Coimbatore on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000—15,200 for a period of three years w.e.f. 23-12-2002 (F.N.) or until further orders, whichever is earlier.

D. P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 22nd January 2003

F. No. 1/11/97-DRT.—The President is pleased to extend the deputation period of Shri R. K. Bhorla, Recovery Officer in the office of Debts Recovery Tribunal-II, Delhi on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- for a period of one year w.e.f. 28-12-2002 to 27-12-2003 or until further orders, whichever is earlier.

D. P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 24th January 2003

F. No. 34/3/00-DRT.—The President is pleased to extend the deputation period of Shri P. K. Singh, Secretary/Registrar in the office of Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi on deputation basis in the pay scale of Rs. 12,750—16,500 with effect from 9-1-2003 (F.N.) for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

D. P. BHARDWAJ, Under Secy.

## MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

### DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 17th January 2003

No. 02/2003/No. 6/2207/2000/HRD-I/7756.—On attaining the age of superannuation Shri Nirmalendu Sikdar, Foreign Trade Development Officer in the Office of the Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Kolkata has retired from Government service with effect from 30-11-2002 (A/N).

A. K. M. CHAKANKAR, Jt. Director Genl. of Foreign Trade

No. 03/2003/No. 6/1177/77/HRD-I/7760.—On attaining the age of superannuation Shri C. V. Nirmalarajan, Joint Director General Foreign Trade in the Office of the Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Chennai has retired from Government service with effect from 31-12-2002 (A/N).

A. K. M. CHAKANKAR, Jt. Director Genl. of Foreign Trade

### (DEPTT. OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION) TARIFF COMMISSION

New Delhi-110003, the 30th December 2002

No. A-19011/4/02-Admn.—The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Smt. Renuka Viswanathan, IAS (KN : 71) as Member Secretary, Tariff Commission in the Deptt. of IP&P in the rank and pay of Additional Secretary to the Govt. of India (Rs. 22,400-525-24,500) vide Deptt. of Personnel & Training's Order No. 9/50/2002-EO(SM.J) dated 20-11-2002. Smt. Renuka Viswanathan has assumed charge of member Secretary, Tariff Commission w.e.f. 26-12-02(F/N).

R. K. SAXENA, Director (GA)

## MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 9th December 2002

No. A-12011/1/2000-Estt.—The President is pleased to further extend the ad-hoc appointment of Shri Shesh Kumar, a permanent Assistant of CSS on the cadre of the Ministry of Petroleum & Natural Gas, as Section Officer in this Ministry on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- for a period of three months w.e.f. 1-10-2002 to 31-12-2002 or till such time a regular/select list Section Officer becomes available, whichever is earlier.

2. The appointment of the above officer is purely on ad-hoc basis and will not bestow on Shri Shesh Kumar any claim for regular appointment or seniority in the grade of Section Officer of CSS.

S. S. KEMWAL, Under Secy.

## MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 15th January 2003

No. 1 A-12011/13/2000-HR-II.—In continuation of this Department's notification of even number dated 20th December, 2000, the President is pleased to extend the deputation of Shri A. S. Chhatwal, IAS (PB : 86) as Private Secretary

to Minister of Chemicals & Fertilizers (Shri Sukhdev Singh Dhindsa) beyond 12-12-2002 to 12-12-2004 or till he ceases to function as PS to Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

PAWAN WADHWA, Dy. Secy.

## MINISTRY OF COAL & MINES

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 27th January 2003

No. 12/8/96-ASO.—The President is pleased to appoint Sh. Suresh Kumar, I.C. & C.E.S. (93) as Deputy Secretary in the Department of Coal in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- with effect from 27-1-2003 (F/N) to 26-1-2007 or until further orders, whichever is earlier.

T. K. GHOSH, Director

## MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 23rd January 2003

No. 47(6)/94-Estt. (Vol. III).—In continuation of the Ministry of Steel's Notification of even number dated 28-8-2002, the President is pleased to extend the appointment on an ad-hoc basis, of Shri A. C. R. Das and Shri D. Ka hiva, Deputy Industrial Advisors in the Ministry of Steel as Joint Industrial Advisers in the same Ministry for a further period of six months w.e.f. 1-2-2003 to 31-7-2003 or until further orders or till regular incumbents become available whichever is the earliest.

2. The appointment as notified will not confer any right on the officers to claim regularisation or seniority with reference to the grade of Joint Industrial Adviser in the Ministry of Steel, Government reserves the right to terminate the ad-hoc appointment without assigning any reason or giving notice to the officer concerned.

BABOO RAM, Under Secy.

## MINISTRY OF AGRO & RURAL INDUSTRIES

New Delhi, the 18th December 2002

No. 18011/7/2002/Estt.—The President is pleased to appoint Shri Vinay Kumar, as First Personal Assistant to Hon'ble Minister of State for Agro and Rural Industries (Shri Nikhil Kumar Choudhury) in the Ministry of Agro and Rural Industrial, at the level of Section Officer with effect from 29-10-2002.

The above appointment is co-terminus with the tenure of the Minister of State (ARI) or till the Minister of State (ARI) desires to keep him in his personal Establishment in the Ministry of Agro & Rural Industries, whichever is earlier.

H. R. JOSHI, Under Secy.

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 28th January 2003

No. A-11011/04/94-E.I.—In continuation of earlier notification dated 29th November, 2002, the President is pleased to appoint Shri Surender Mohan Nayyar, Assistant Director (OL) of the Central Secretariat Official Language Service as Deputy Director (Official Language) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Department of Food & Public Distribution, on regular basis with effect from 8-1-2003 until further orders.

M. L. MALHOTRA, Under Secy.

No. PF(2033)/E.I.—On attaining the age of superannuation, Smt. Raj Grover, Library & Information Officer in the Department of Food and Public Distribution shall retire from Government service w.e.f. the afternoon of the 31st January, 2003.

M. L. MALHOTRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 31st January 2003

No. A-12011/11/95-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Banshi Dhar Konar in the post of Assistant Professor in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 w.e.f. the forenoon of 30th December, 2002 and until further orders. He shall be on probation for a period of one year from the date of his appointment as Assistant Professor in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi.

S. K. NAYAK, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110 016, the 7th January 2003

No. A-32013/02/2002-Admn.1(A).—The President is pleased to appoint the following junior Analysts as Scientist 'B' on ad-hoc basis in the Department of Science and Technology in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 for six months w.e.f. 01-01-2003 to 03-07-2003 or till regular incumbents join duty, whichever is earlier :—

- (i) Shri Basant Sharma
- (ii) Dr. Ashok Kumar Singh
- (iii) Shri Rajiv Sharma

S. C. CHAWLA, Dy. Secy.

The 16th January 2003

No. A-12025/01/99-Admn.1(A).—In continuation of this Department's notification number A-19013/3/99-Admn.1(A) dated 24-07-2002, the President is pleased to extend the term of deputation of Dr. U. S. Tandon Scientific Attache in the Embassy of India, Tokyo, in the pay scale of Rs. 16400-450-20000 upto 28-02-2003 or until further orders whichever is earlier.

S. C. CHAWLA, Dy. Secy.

The 21st January 2003

No. A-32013/3/2001-Admn.1(A).—In continuation of this Department's notification of even number dated 21/02/2002, the President is pleased to extend the term of appointment of Shri Radhey Shyam Tiwari, Junior Analyst as Scientist 'B' on ad-hoc basis in the Department of Science and Technology in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 for one year w.e.f. 25-7-2002 to 24-07-2003 or till regular incumbent joins duty, or till revised rules for Scientific posts are finalised, whichever event is earlier.

S. C. CHAWLA, Dy. Secy.

New Delhi-110016, the 29th January 2003

No. SM/01/021/2002.—The President is pleased to appoint Dr. Tarak Nath Basak, Research Officer in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Kolkata as Deputy Director in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in that Organisation on promotion basis with effect from 12-11-2002 (F.N.).

S. CHAKRAVATHY, Under Secy.

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

New Delhi-110 016, the 30th January 2003

No. A-19014/03/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Pradeep Kumar, an officer of Central Secretariat Service holding the post of Under Secretary on personal up-gradation basis to Grade-I of the Central Secretariat Service on purely ad hoc basis, in the Department of Scientific and Industrial Research w.e.f. the forenoon of 9th January, 2003 and until further orders.

GURMIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi, the 15th January 2003

No. A-12012/1/03-P.II(.).—The President is pleased to appoint Ms. Meena Gupta, IAS (OR: 71), as Additional Secretary in the scale of Rs. 22400-525-24500/- in the Ministry of Environment & Forests with effect from the forenoon of the 14th January, 2003.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 29th January 2003

No. A. 12025/5/94-CHS.IV.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rajesh Hans to the post of Specialist Grade-II (Ophthalmology) of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service on probation and to post him at C.G.H.S., Mumbai with effect from the forenoon of the 17th November, 1995 and until further orders.

U. C. NANBIA, Under Secy.

New Delhi, the 23rd January 2003

No. A. 32013/2/2002-Estt.I.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/3/2002-EO (MM-I) dated 16-1-2003 and 17-1-2003, Smt. A. C. Pandey, IAS (UP: 84), has assumed the charge of the post of Director in the Department of Health, Ministry of Health and Family Welfare with effect from the forenoon of 22nd January, 2003.

DR. ANIL KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110011, the 28th January 2003

No. A. 35012/3/92-CHS.I.—Consequent upon acceptance of his resignation Dr. Sayavir Singhal, Senior Medical Officer is deemed to have relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer of the Central Health Service under Government of National Capital Territory of Delhi on the forenoon of 25-4-2001.

The period from 20-6-1997 till 25-4-2001 (FN) has been treated as DIES-NON.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/146/99-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sarita Kumari to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 10-4-2000 until further orders. Dr. Sarita Kumari is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 3rd February 2003

No. A. 12025/117/94-CHSI.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. K. M. Yadav to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-75-2800-EB-100-000 (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21st September, 1994 until further orders. Dr. K. M. Yadav is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Ahmedabad.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPTT. OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 1st January 2003

No. 44011/8/2002-E.I.—The President is pleased to appoint Sri Raju Manjhi [CSL No. 3962(A)], Section Officer in the Planning Commission to Grade-I of the Central Secretariat Service in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- purely on ad-hoc basis against the regular vacancy of Under Secretary in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from the afternoon of 26th December, 2002 pending preparation of Select List of Grade I of CSS or until further orders whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment shall not confer any right on the officer for inclusion of his name in the Select List of Grade I of CSS. This ad-hoc appointment shall also not be used to claim seniority as and when his name is included in the Select List of Grade I of CSS.

K. D. UPRETI, Under Secy.

The 15th January 2003

No. 44011/8/2002-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Deen Bandhu Singh [CSL No. 3942(A)], Section Officer in the Ministry of Del. to Grade-I of the Central Secretariat Service in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- purely on ad-hoc basis against the regular vacancy of Under Secretary in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from the forenoon of 6th January, 2003 pending preparation of Select List of Grade I of CSS or until further orders whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment shall not confer any right on the officer for inclusion of his name in the Select List of Grade I of CSS. This ad-hoc appointment shall also not be used to claim seniority as and when his name is included in the Select List of Grade I of CSS.

K. D. UPRETI, Under Secy.

New Delhi-110001, the 27th January 2003

F. No. 19015/(12)1/97-EA.—Consequent upon completion of approved extended period of deputation as Administrative Officer in the Commission for Agricultural Costs and Prices, Department of Agriculture and Co-operation, Sh. Kumaljit Singh, Assistant Accounts Officer in the Departmental accounting Organisation, has relinquished the charge of the post in the Commission with effect from 31-12-2002 (A/N).

RAJ KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 31st January 2003

No. 12-6/2002.My (Adm.).—The President is pleased to appoint Shri M. L. Mehta, STE as Director (G.C.S. Group 'A' Gazetted, Non-Ministrial) on adhoc basis for one year or till a regular incumbent joins, whichever is earlier, at Northern Region Farm Machinery Training & Testing Institute, Hisar (Haryana) in the scale of Rs. 12000-375-16500/- w.e.f. the forenoon of 15-11-2002.

H. C. BATRA, Under Secy.

## DIRECTORATE OF JUTE DEVELOPMENT

Kolkata-700020, the 29th January 2003

No. A.15-321/74.—The Undersigned is pleased to appoint Shri B. K. Saha, a regular Accountant in the Directorate of Jute Development, Kolkata to the post of Administrative Officer in the same Directorate in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in a temporary officiating capacity w.e.f. the forenoon of 16th January, 2003.

S. K. BISWAS, Dir.

## (DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 23rd January 2003

No. 9-10/2002-Fy. (Admn.).—The President is pleased to appoint Shri H. Lekshmana Iyer, to the post of Senior Administrative Officer (Group 'A' Gazetted) with effect from 01-10-2002 (Forenoon) for a period of two years, on deputation basis, in Aquaculture Authority in the scale of pay Rs. 8000-275-13500.

R. K. MEHTA, Under Secy.

No. 9-10/2002-Fy. (Admn.).—The President is pleased to appoint Dr. P. Pakshirajan, to the post of Assistant Director (Technical) (Group 'A' Gazetted) with effect from 01-11-2002 (Forenoon) for a period of two years on deputation basis, in Aquaculture Authority in the scale of pay Rs 8000-275-13500/-.

R. K. MEHTA, Under Secy.

## MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND MINISTRY OF AGRO & RURAL INDUSTRIES

New Delhi, the 3rd January 2003

No. A-18011/11/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Tuteja, IAS (PB : 68) as Secretary, Ministry of Small Scale Industries and Ministry of Agro & Rural Industries with effect from the afternoon of 31st December, 2002, until further orders.

H. R. JOSHI, Under Secy.

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 14th January 2003

No. A-12022/8/98-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/5/2001-CS.II, dated 9/10 December, 2002, the President is pleased to appoint Shri Kallu Singh, PPS (Ad-hoc) to the post of Principal Private Secretary in the CSSS cadre of the Ministry of Social Justice and Empowerment on regular basis in the scale of pay of Rs. 10000—15200 with effect from the forenoon of the 10th December, 2002.

L. C. MAHARRA, Under Secy.

New Delhi the 27th January 2003

No. 12014/7/2002-BCC.—Consequent upon the approval of the Competent Authority, the President is pleased to extend the tenure of Shri A. A. Naqvi as Managing Director of the National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) in Schedule 'C' scale of pay of Rs. 22500-600-27300 for a period of five years w.e.f. 04-11-2002 (F.N.) until further orders.

PRAHLAD KUMAR, Dir (BC)

New Delhi the 3rd February 2003

No. 18-9/2001-CLM.—The President is pleased to appoint Shri K. K. Seena, IAS (Retired) (M.P.: 63) as Commissioner for Linguistic Minorities under Article 350B of the Constitution for a period of three years with effect from the date he takes over charge of the Office.

SWAPNA RAY, Jt. Secy.

# MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 27th January 2003

No. 2(1)/2001-P.I.—In continuation of the Department's Notification of even number dated 18-10-2001, the term of deputation of Shri Rattan Singh, Assistant Engineer (Electrical) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500 in the Department of Information Technology is extended for a further period of one year on the existing terms & conditions with effect from 18-10-2002 or until further orders, whichever is earlier.

R. K. MANCHANDA, Dy. Dir.

No. 2(2)/99-P.I.—In continuation of this Department Notification of even number dated 19-08-2002, the term of deputation of Smt. A. Padmayati, Finance Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- in the Department of Information Technology's Project "Environment Management in the Semi-conductor and Printed Circuit Board Industry in India" is extended for a further period of three months with effect from 01-01-2003 to 31-03-2003.

R. K. MANCHANDA, Dy. Director

# NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 16th January 2003

No. A-39013/1/2001-Admn.I.—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Shri S. L. Jawaharlal, Emp-Code-2496, from the post of Scientific Officer/Engineer Grade 'SB', National Informatics Centre, New Delhi, with effect from the afternoon of 25th August 2000 and he is relieved of his duties from the same day.

L. S. VISWANATHAN, Dy. Director (Admn.)

# MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 14th January 2003

No. 1/2003, F. No. 2/1/2001-Admn.—The President is pleased to appoint Shri A. S. Dhingra as Commissioner (Command Area Development) on deputation basis, in the Ministry of Water Resources in the scale of Rs. 18,000-500-22,400/- for a period of 5 years with effect from the forenoon of 10-1-2003.

N. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 22nd January 2003

No. 4/2003, F. No. 19/14/2001-Estt. I.—In pursuance of the Department of Expenditure (Implementation Cell) O. M. No. 19(1)/IC/85 dated 24th July, 1990 and consequent upon acceptance of recommendations contained in the report of the Internal Work Study Unit of the Ministry of Water Resources on categorization and fixation of staffing pattern for the libraries existing in various organisations under the Ministry of Water Resources, the President is pleased to categorize the Library existing in Central Water Commission (HQ) as Category III Library with immediate effect.

ASHOK JHA, Under Secy.

New Delhi, the 29th January 2003

No. 2/2003 F. No. 30/5/2002-EI.—Consequent upon acceptance of resignation from Central Water Engineering (Group-A) Service, Shri Shailesh Rajan, Assistant Director/Assistant Executive Engineer, Central Water Commission is relieved of his duties with effect from 27-12-2002 (A/N).

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

No. 3/2003 F. No. 25/3/(7)/2001-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2000, the President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar Singh to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the scale of Rs. 8000—13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 24-12-2002 (F/N).

2. Shri Rajesh Kumar Singh will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

No. 5/2003 F. No. 25/3/(2)/2001-E.I.—On the results of the Engineering Service Examination, 2000, the President is pleased to appoint Shri Sushant Kumar Samal to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the Scale of Rs. 8000—13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 10-12-2002 (F/N).

2. Shri Sushant Kumar Samal will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

No. 6/2003 F. No. 25/3(16)/2001-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2000, the President is pleased to appoint Shri Jayant Yashwant Rao to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the scale of Rs. 8000—13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 11-12-2002 (A/N).

2. Shri Jayant Yashwant Rao will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

No. 8/2003 F. No. 25/3(8)/2001-E.I.—On the result of the Engineering Services Examination, 2000, the President is pleased to appoint Shri Sheel Rajneesh to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the Scale of Rs. 8000—13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 15-11-2002 (F/N).

2. Shri Sheel Rajneesh will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

No. 9/2003 F. No. 25/3(14)/2001-E.I.—On the result of the Engineering Services Examination, 2000, the President is pleased to appoint Shri B. Venkata Dharma Rao to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the scale of Rs. 8000—13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 11-12-2002 (F/N).

2. Shri B. Venkata Dharma Rao will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.



**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION**

New Delhi, the 30th January 2003

No. A-11013/2/90-Admn-I.—The President is pleased to appoint Shri P. K. Hota, IAS (OR : 69), Additional Secretary in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation as part time Chief Vigilance Officer in the Ministry w.e.f. 25-10-2002 vice Smt. Vineeta Rai, until further orders.

NEERAJ KUMAR, Dy. Secy.

The 30th January 2003

No. A-22012/1/2001-Admn.-I.—The President is pleased to appoint Ms. Anupma Anand, IRS (IT:92) as Deputy

Secretary in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation in the scale of Rs. 12,000—16,500/- on Central tenure deputation basis w.e.f. 6-1-2003 (F/N) for a period of 4 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. On her appointment as Deputy Secretary in this Ministry, she is posted as Director of Estates-II in the Directorate of Estates w.e.f. the same date i. e. 6-1-2003, until further orders vice Shri Sarvesh Saini.

NEERAJ KUMAR, Dy. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, फरीदाबाद द्वारा मद्रित

एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,  
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003